Magnum Ventures Limited

CIN: L21093DL1980PLC010492

Registered Office: HNO-MN01, Hub and Oak, E-14, Lower Ground Floor, Defence Colony,

New Delhi-110024 Phone: +91-11-42420015

E-mail: info@magnumventures.in Website: www.magnumventures.in

Date: 27th February, 2024

Department of Corporate Services	Department of Corporate Communications
BSE Limited	National Stock Exchange India Limited
Phiroze JeeJeebhoy Towers,	Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra-Kurla
Dalal Street, Fort	Complex, Bandra(E)
Mumbai-400001	Mumbai-400 051

Subject: Intimation of Newspaper advertisement

Ref: Scrip Code BSE: 532896 NSE: MAGNUM

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and applicable provisions of SEBI (Issue Of Capital And Disclosure Requirements) Regulations, 2018 please find enclosed herewith the copy of newspaper advertisement in relation to revision in Rights Issue Schedule, published on 27th February, 2024 in the following newspapers:

- 1. Financial Express—English newspaper
- 2. Jansatta Hindi newspaper

Kindly take the same on your records.

Thanking You
Yours Sincerely,
For Magnum Ventures Limited



Aaina Gupta Company Secretary cum Compliance Officer



Registered Office: Peninsula Business Park, "A" Tower, 8th Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Tel.: (022) 6688 0100, Fax: (022) 6688 0105, E-mail: hcl@hindcompo.com, Website: www.hindcompo.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act. 2013 ('Act') read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 and other applicable Regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020. read with other relevant circulars including General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred as 'MCA Circulars') and other applicable provisions of the Act, Rules, Regulations, Circulars and Notifications etc., as for the time being in force, the approval of the Members of the Company is being sought though Postal Ballot process, by voting through electronic means ('remote e-voting') in respect of the Special Businesses as set out in the Postal Ballot Notice dated 21st February, 2024.

Pursuant to the aforesaid MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement, only through electronic mode, to all those Members whose email addresses are registered with the Company, Depository Participants and Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') of the Company and whose names appeared as members in the Company's Register of Members / List of Beneficiaries as provided by the Depositories as on the Cut-off date being Friday, 16th February, 2024. Physical copies of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot forms and pre-paid business reply envelopes are not being sent to the Members for the Postal Ballot, in line with the exemption provided in the aforesaid MCA Circulars.

The Company has engaged the services of Central Depositories Services (India) Limited ('CDSL') to provide remote e-voting facility to its members to exercise their right to vote on the resolutions proposed in the Postal Ballot notice. The communication of the assent or dissent of the members would take place through remote e-voting only. A member may exercise voting through remote e-voting only as per the provisions of the aforesaid MCA Circulars. For casting the vote, members are required to read carefully the instructions mentioned in the Postal Ballot notice. Members are requested to note that the remote e-voting will commence from Tuesday, 27th February, 2024 (9.00 a.m. IST) and end on Wednesday, 27th March, 2024 (5.00 p.m. IST). Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date i.e. Wednesday, 27th March. 2024 (5.00 p.m. IST) and the remote e-voting module shall be disabled by the CDSL thereafter. Voting rights of a member shall be in proportion to his/her/its shareholding in the paid-up share capital of the Company as on the Cut-Off date being Friday, 16th February, 2024. A person who becomes a member after the Cut-Off date should treat this notice for information purpose only. A copy of the Postal Ballot notice is also available on the website of the Company at www.hindcompo.com, website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The Members who do not receive the Postal Ballot notice may download the same from above mentioned websites, or the member may obtain the same by writing an email to the Company at investor@hindcompo.com.

The manner of remote e-voting by the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email address is provided in the Postal Ballot notice. The manner in which the persons who have forgotten the User ID and Password, can obtain/generate the same has also been provided in the said Notice.

The Board of Directors of the Company has appointed CS Manish Baldeva (FCS 6180). Proprietor, M/s, M Baldeva Associates. Company Secretaries. Thane, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and

The results of Postal Ballot process will be announced at 11:30 a.m. on Friday, 29th March, 2024 at the Registered Office of the Company. The results along with the Scrutinizer's Report will be displayed at the Registered Office of the Company and hosted on the website of the Company viz. www.hindcompo.com as well as on the website of CDSL. The results will also be communicated to the Stock Exchanges, where the shares of the Company are listed.

Members who have not updated their e-mail address are requested to register the same, in respect of shares held by them in electronic form with the Depositories through their Depository Participants and in respect of shares held in physical form by writing to Company's RTA, Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikroli (West), Mumbai - 400083 or at E-mail: rnt.helpdesk@linktime.co.in and submitting the requisite documents as may be sought by the RTA in this regard.

In case of any queries/grievances regarding remote e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the help section of the CDSL at its website i.e. www.evotingindia.com or call on CDSL helpdesk at toll free no: 1800 225 533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai -400013 at the designated e-mail ld: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For Hindustan Composites Limited

Place: Mumbai Ravi Vaishnav Date: 26th February, 2024 Company Secretary & Compliance Officer

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated January 18, 2024 the ("Letter of Offer") or ("LOF") and Addendum to LOF dated February 21, 2024 ("First Addendum") filed with the BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE", collectively with BSE referred to as the "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")...

MAGNUM VENTURES LIMITED

Magnum Ventures Limited (the "Issuer" or "Company") was incorporated under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Delhi and Harvana under the name 'Magnum Papers Private Limited' and a certificate of incorporation dated May 29, 1980 was issued by the Registrar of Companies, Delhi and Haryana. Our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by our Shareholders at an extraordinary general meeting held on February 15, 1995 and consequently the name of our Company was changed to 'Magnum Papers Limited' and a fresh certificate of incorporation dated May 31, 1995 was issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana at Delhi. Subsequently, pursuant to a resolution passed by the Shareholders in their EGM held on September 4, 2006, the name of our Company was changed to 'Magnum Ventures Limited' and a fresh certificate of incorporation dated November 15, 2006 was issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana at Delhi. For details in relation to change in Registered Office of our Company, please refer to "General Information" on page 61 of the Letter of Offer.

Registered Office: H.No. - M.N. 01, Hub and Oak, E-14, Lower Ground Floor, Defence Colony, New Delhi - 110024, Delhi, India

Telephone: +91 114 242 0015 | Facsimile: N.A. Corporate Office (where books of accounts are maintained): 18/41, Site IV, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad - 201 010, Uttar Pradesh, India

Telephone: +91 120 419 9200 | Fax No.: N.A. E-mail: info@magnumventures.in | Website: www.magnumventures.in | Contact Person: Aaina Gupta, Company Secretary and Compliance Officer Corporate Identification Number: L21093DL1980PLC010492

OUR PROMOTERS: PRADEEP KUMAR JAIN, PARMOD KUMAR JAIN AND PARVEEN JAIN

THE ISSUE

ISSUE OF UPTO 90,59,433 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹54/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹44/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹4,892.09 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF TWO (02) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY ELEVEN (11) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON THURSDAY, JANUARY 25, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 5.4 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 239 OF THE LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription with respect to Rights Equity Shares.

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") – ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED **JANUARY 18, 2024**

This notice should be read in conjunction with the First Addendum, LOF filed by the Company with the Stock Exchanges and SEBI and the ALOF and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the following:

This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Wednesday, February 7, 2024 and was scheduled

to close on Monday, February 26, 2024, has now been extended from Monday, February 26, 2024 to Tuesday, February 27 2024, by the Rights Issue Committee in its meeting held on Monday, February 26, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Tuesday, February 27 2024. Equity

Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Tuesday. February 27 2024.

REVISED	ISSUE	SCHEDULE	
---------	-------	----------	--

Date: February 26, 2024

Place: Delhi

Issue Opening Date	Wednesday, February 07, 2024
Issue Closing Date	Tuesday, February 27 2024
Finalising the basis of allotment with the Designated Stock Exchange	Tuesday, March 05, 2024
Date of Allotment (on or about)	Tuesday, March 05, 2024
Initiation of refunds	Tuesday, March 05, 2024
Date of credit (on or about)	Wednesday, March 06, 2024
Date of listing (on or about)	Monday, March 11, 2024

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue

**Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms or on before the Issue Closing Date.

#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s)on or prior to the Issue Closing Date.

This Addendum shall be available on the respective websites of our Company at www.magnumventures.in; the Registrar to the Issue at www.masserv.com; and the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com

Accordingly, there is no change in the LOF and ALOF dated January 18, 2024 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing date. Change in Issue closing date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, FIRST ADDEMDUM, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN

CONJUCTION WITH THIS ADDENDUM.

All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company

For MAGNUM VENTURES LIMITED On Behalf of the Board of Directors Sd/-

Parveen Jain Chairman and Non-Executive Director

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer and First Addendum with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and is submitted to Securities and Exchange Board of India for information and dissemination. The Letter of Offer and First Addendum is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, Our Company at www.magnumventures.in and the Registrar to the Issue at www. massery.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer and First Addendum including the section "Risk Factors" beginning on page 23 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.



GODAVARI BIOREFINERIES LIMITED

CIN: U67120MH1956PLC009707 Regd. Off.: Somaiya Bhavan, 45/47, M G Road, Fort, Mumbai - 400001 Website: www.godavaribiorefineries.com, Email: investors@somaiya.com, Tel.: 022-61702100

NOTICE OF ISLEXIKA OKDINAKY GENERAL MEETING (EUGM) THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 1° Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of Godavari Biorefineries Limited ("the Company") will be held on Thursday, 21st March, 2024 at 11: 30 a.m (IST) via two-way Video Conferencing ('VC') facility / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as se out in the Notice dated 8th February, 2024 convening the Extra Ordinary General Meeting, without the physical presence of the Members at a common venue. In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 28th September 2020, 31th December 2020, 13th January 2021 14th December, 2021, 5th May, 2022, 28th December, 2022 and 25th September, 2023 (collectively referred to as 'MCA Circulars'), the Company had dispatched the Notice of the 1st EOGM for FY 2023-24 through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent, Link Intime India Private Limited or Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the EOGM has beer dispensed with vide MCA Circulars. The Notice of EOGM is available on the website of the Company i.e. www.godavaribiorefineries.com and on the website of the National Securities Depository Limited ('NSDL') at https://www.evoting.nsdl.com/. Remote e-Voting: In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended from time to time and Secretarial Standards - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings the Company is pleased to provide to its Members the facility of remote e-Voting and e-voting during the EOGM in respect of the businesses to be transacted at the EOGM. The Company has appointed NSDL for facilitating voting through remote e-Voting, e-voting during the EOGM and participation at the EOGM through VC/OAVM. The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the EOGM. Members are requested to note the following:

- a. The remote e-Voting facility would be available during the following period Commencement of remote e-Voting From 9.00 a.m. (IST) on Monday, 18th March 2024 End of remote e-Voting Upto 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, 20th March, 2024. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time;
- b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Company as on Thursday, 14th March, 2024 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their righ during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting / e-voting during the EOGM;
- c. Any person who acquires equity shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of Notice of EOGM electronically but on or before the cut-off date i.e. Thursday, 14th March, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However if a person is already registered with NSDL for e-voting then user ID and password can be used for casting your vote.
- d. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the EOGM will also be eligible to participate at the EOGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again.

Registration of e-mail addresses: Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below, before 5:00 p.m (IST) on Thursday, 14th March, 2024, for registering their e-mail addresses to receive the Notice of the EOGM electronically and to receive login-id and password for

- In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in.
- 2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to respective Depository Participan or by email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

If you have any queries, issues or grievances regarding attending EOGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs" and e-voting manual available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at toll free no.: 022-48867000 and 022-24997000

For Godavari Biorefineries Limited

DIN - 00295458

Samir S. Somaiya Chairman & Managing Director

289600	2	0.02	579200	0.24	1	2	1600	23
292800	1	0.01	292800	0.12	1	1	1600	803
297600	1	0.01	297600	0.13	1	1	1600	790
300800	2	0.02	601600	0.25	1	2	1600	-38
308800	1	0.01	308800	0.13	1	1	1600	759
320000	3	0.02	960000	0.41	2	3	3200	586
324800	1	0.01	324800	0.14	1	1	1600	716
331200	2	0.02	662400	0.28	1	2	1600	-20
340800	1	0.01	340800	0.14	1	1	1600	672
353600	1	0.01	353600	0.15	1	1	1600	637
356800	1	0.01	356800	0.15	1	1	1600	628
363200	1	0.01	363200	0.15	1	1	1600	611
366400	4	0.03	1465600	0.62	3	4	4800	809
368000	2	0.02	736000	0.31	1	2	1600	-40
369600	1	0.01	369600	0.16	1	1	1600	594
379200	2	0.02	758400	0.32	1	2	1600	-46
388800	1	0.01	388800	0.16	1	1	1600	541
390400	2	0.02	780800	0.33	1	2	1600	-52
398400	1	0.02	398400	0.17	1	1	1600	515
400000	- 1	0.01	400000	0.17	1	1	1600	511
403200	2	0.02	806400	0.34	1	2	1600	-59
404800	- 1	0.02	404800	0.17	1	1	1600	498
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAME		100000000000000000000000000000000000000	- International Control		1	1	THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	
406400	2	0.01	406400	0.17	-1	T:	1600	493
409600	2	0.02	819200	0.35	1	2	1600	-63
414400	- 1	0.01	414400	0.18		1	1600	472
420800		0.01	420800	0.18	1	1	1600	454
425600	- 1	0.01	425600	0.18	1	1	1600	441
428800		0.01	428800	0.18		1	1600	432
433600		0.01	433600	0.18	1	1.	1600	419
435200		0.01	435200	0.18	1	1	1600	415
448000	1	0.01	448000	0.19	1	1	1600	380
452800	2	0.02	905600	0.38	1	1	3200	734
456000	1	0.01	456000	0.19	1	1	1600	358
457600	1	0.01	457600	0.19	1	1	1600	354
459200	2	0.02	918400	0.39	1	1	3200	699
464000	1	0.01	464000	0.20	1	1	1600	337
478400	1	0.01	478400	0.20	1	1	1600	297
480000	1	0.01	480000	0.20	1	1	1600	293
483200	1	0.01	483200	0.20	1	1	1600	284
484800	1	0.01	484800	0.20	-1	1	1600	280
489600	1	0.01	489600	0.21	1	1	1600	267
499200	1	0.01	499200	0.21	1	1	1600	241
505600	2	0.02	1011200	0.43	1	1	3200	447
507200	1	0.01	507200	0.21	1	1	1600	219
512000	1	0.01	512000	0.22	1	1	1600	206
520000	1	0.01	520000	0.22	1	1	1600	184
558400	2	0.02	1116800	0.47	1	1	3200	159
560000	1	0.01	560000	0.24	1	1	1600	75
574400	1	0.01	574400	0.24	1	1	1600	36
595200	1	0.01	595200	0.25	1	1	1600	-21
632000	1	0.01	632000	0.27	1	1	1600	-12
633600	2	0.02	1267200	0.54	1	1	3200	-25
635200	2	0.02	1270400	0.54	1	1	3200	-25
640000	1	0.01	640000	0.27	1	1	1600	-14
651200	1	0.01	651200	0.28	1	1	1600	-17
654400	1	0.01	654400	0.28	1	1	1600	-18
692800	1	0.01	692800	0.29	1	1	1600	-28
696000	2	0.02	1392000	0.59	1	1	3200	-59
721600	1	0.01	721600	0.30	1	1	1600	-36
750400	1	0.01	750400	0.32	1	1	1600	-44
785600	1	0.01	785600	0.33	1	1	1600	-53
812800	4	0.01	812800	0.34	1	1	1600	-613
012000		0.01	000000	0.04	- 2	20 10	1000	010

1267200	1	0.01	1267200	0.54	1	1	3200	-251
1272000	1	0.01	1272000	0.54	1	1	3200	-264
1280000	1	0.01	1280000	0.54	1	1	3200	-285
1289600	1	0.01	1289600	0.54	1	1	3200	-312
1369600	1	0.01	1369600	0.58	1	1	3200	-529
1696000	1	0.01	1696000	0.72	1	1	4800	182
1768000	1	0.01	1768000	0.75	1	1	4800	-14
1798400	1	0.01	1798400	0.76	1	1	4800	-97
1832000	1	0.01	1832000	0.77	1	1	4800	-189
1924800	1	0.01	1924800	0.81	1	1	4800	-441
1931200	1	0.01	1931200	0.82	1	1	4800	-459
2022400	2	0.02	4044800	1.71		1	9600	-1414
	700	0.00	700000000	0.00	1	2	1600	1600
2147200	1	0.01	2147200	0.91	1	1	6400	553
2148800	15	0.12	32232000	13.61	1	1	72000	-1576

Place : Mumbai

Date: 26th February, 2024

Stock Exchange viz. National Stock Exchange of India Limited and has authorized the online corporate action for the allotment of the Equity Shares in dematerialised form to various successful applicants.

The CAN-cum-Refund Orders and Allotment Advice and/or Notices are being dispatched to the address of the applicants as registered with the depositories / as filled in the application form on before February 26, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks being processed on or before February 26, 2024 for unblocking fund. In case the same is not received within Four (4) days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The company shall file the listing application with National Stock Exchange of India Limited on or before February 26, 2024. The Company is in process of obtaining the listing & the trading approval from National Stock Exchange of India Limited and the trading is expected to commence on or before February 27, 2024

Note: All capitalised terms used and not specifically defined herein shall have the same meaning as Ascribed to them in the Prospectus dated February 23, 2024. DISCLOSURES PERTAINING TO THE BRLM'S TRACK RECORD ON PAST ISSUES WITH A BREAKUP OF HANDLING OF SME IPOS FOR THE LAST 3 YEARS:

GRETEX CORPORATE SERVICES LIMITED

TYPE	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24
SME IPO	3	9	8
MAIN BOARD	0	0	0
	INVESTORS, PL	EASE NOTE	

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at ipo@bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the first/ sole applicants, serial number of the application form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

Place: Indore

Date: February 26, 2024

GRETEX CORPORATE SERVICES LIMITED A-401, Floor 4th, Plot FP-616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near

Indiabulls, Dadar (w), Delisle Road, Mumbai, Mumbai-400013, Maharashtra, India Telephone: +91 96532 49863 | E-mail: info@gretexgroup.com

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE

Website: www.gretexcorporate.com

Contact Person: Ms. Dimple Magharam Slun

SEBI Registration Number: INM000012177



REGISTRAR TO THE ISSUE

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED S6-2, 6th Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, next to Ahura Centre,

Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra, India Tel: +91 - 22 - 6263 8200 | Fax: +91 - 22 - 6263 8299

Email: ipo@bigshareonline.com | Website: www.bigshareonline.com Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com

Contact Person: Mr. Asif Sayyed | SEBI Registration Number: INR000001385

On Behalf of the Board of Directors For Zenith Drugs Limited Sandeep Bhardwaj

Managing Director

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF ZENITH DRUGS LIMITED

Disclaimer: Zenith Drugs Limited has filed the Prospectus with the RoC on February 23, 2024 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The Prospectus is available on the website of NSE Limited at https://www.nseindia.com/ and on the websites of the BRLM. Gretex Corporate Services Limited at https://gretexcorporate.com/ ipo/ and Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see "Risk Factors" beginning on page 29 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under U.S. Securities Act of 1993, as amended ("the Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulations under Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such offers and sales were made. There will be no public offering in the United States.

financialexp.epap.in

820800

868800

884800

960000

1035200

1041600

1200000

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

820800

868800

884800

960000

1035200

1041600

1200000

0.35

0.37

0.37

0.41

0.44

0.44

0.51

1600

3200

3200

3200

3200

3200

3200

-635

834

791

586

381

364

-68



New Delhi

AdBaaz



एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट-IV-A नियम 8 (6) के लिए देखें अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सुचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्तें व सपठित नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ई- नीलामी विक्रय सूचना आमजन को साधारण तथा ऋणी, सहऋणी व जमानतदार को विशेष रूप से एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित बंधक अचल सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा **एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक** लिमिटेड (ए शेड्युल्ड कॉमिशियल बैंक) के नाम से ज़ात जो कि आगे AUSFB सन्दर्भित किया जावेगा के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया था को ''जैसे है जहां है'' एवं जो भी है जैसा भी है के आधार पर ई-नीलामी द्वारा निम्न तालिका में दर्शित बकाया राशि एवं भविष्य का व्याज, लागत व शुल्क की वसूली हेतु विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह सूचित किया जाता है ई-नीलामी वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से आयोजित की जावेगी ।

ऋण खाता संख्या/ऋणी/ सह-ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्त्ता का नाम	13(2) नोटिस की दिनांक व राशि	कब्जा दिनांक	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	ई-निविदा जमा कराने की तिथि	ई-नीलामी निविदा खोलने व जमा कराने का स्थान	सम्पर्क सूत्र व संपत्ति विजिट दिनांक
ऋण खाता सं.: L9001060100973102 राम बिलास पुत्र जगमोहन (ऋणी), हरीश मेहरा पुत्र जगमोहन (सह-ऋणी), श्रीमती अनीता पत्नी हरीश मेहरा (सह-ऋणी), जगमोहन पुत्र सुन्दर (सह-ऋणी व बंधककर्ता)	08 जुलाई 2019 ₹ 1206564/- रुपये बारह लाख छह हजार पांच सौ चौंसठ मात्र 05 जुलाई 2019	23 जनवरी 2024	मकान नंबर 1257, प्लॉट नंबर 62, अराजी नंबर खसरा म्यू नंबर 30, किला नंबर 7(7-9), 14/1, (2-8), नंगला एन्क्लेव पार्ट - 11, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्रफल 66 वर्ग गज बोली लगाने वाले के लिए नोट: बैंक के पास उपरोक्त संपत्ति का सांकेतिक कब्जा है	1535000/- रुपये पंद्रह लाख पॅतीस हजार मात्र	र 153500/- रुपये एक लाख तिरपन हजार पांच सौ मात्र	10 अप्रैल 2024 समय अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	08 अप्रैल 2024 तक या इससे पहले	एयू स्मॉल फाईंनेन्स बंक लिमिटंड, शाखा पता:- 5बी/48पी, नीलम रेलवे रोड, एनआईटी, फरीदाबाद हरियाणा 121001	अमित लोहिय व भानु प्रताप सिंह, 734001176 व 9773358234 इं-मेल आई.र्ड auctions@ aubank.in संपत्ति विजिट दिनांक : 04 अप्रैल 202

(1.) बंधक परिसंपत्ति की ई-नीलामी बिक्री AUSFB सरक्षित लेनदार द्वारा ''जैसा है, जहां है, ''जैसा है वैसा, ''जो कुछ भी है और'' नो रिकोर्स के आधार पर की जायेगी उक्त सम्पत्ति पर कोई ज्ञात प्रभार नहीं है। (2.) ऑनलाइन ई-निलामी की बिक्री में भाग लेने के लिए, बोली दस्तावेज, पैन कार्ड की प्रतियां, कम्पनी और फोटो आईडी, कम्पनी के मामले में बोर्ड रिजोल्पुशन, पते का प्रमाण पत्र ईमएडी के साथ, जो आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी के माध्यम से देय है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड MSME AUCTION POOL ACCOUNT के नाम, चालू खाता संख्या 1921201121711599 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED पांचवी एवं छठी मंजिल, सनी बिग जंक्शन एसटीसी खसरा नं. 64 से 67, ग्राम सुखईपुरा, न्यू आतिश मार्केट जयपुर 302020, IFSC कोड : AUBL0002011 में जमा करना आवश्यक है, एक बार ऑनलाइन बोली सबमिट करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है।आगे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी ईएमडी को निम्नलिखित ईमेल आईडी यानी auctions@aubank.in पर रदद किए गए चेक की कॉपी के साथ **आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी की यूटीआर/रेफरेन्स नंबर/डीडी नं.** भेजने की आवश्यकता होगी। (3.) सभी इच्छ्क प्रतिभागियों/बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि ई--निलामी की बिक्री की कार्यवाही में भाग लेने, जानकारी और शर्तों के लिए **वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net & https://www.aubank.in/bank-auction** अवश्य देखें। और अधिक जानकारी के लिए श्री भान प्रताप सिंह से संपर्क करें: 9358002663 और ई-मेल auctions@aubank.in

नोट:- यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिये नियम 8(6) सहपठित नियम 9(1) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा। यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा इस अवधि मे नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर विक्रय की जाएगी।

स्थानः दिल्ली दिनांकः २६ फरवरी २०२४

प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

MUTHOOT FINCORP LTD. | ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਚਨਾ

CIN: U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

MUTHOOT FINCORP LTD. ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸੂਚਨਾ

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.

CIN: U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 31.03.2023 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months

tenure Gold loans up to 30.06.2023 and MSGB, SME Suvama & EMI due up to 31.12.2023 ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ

ਸੈਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੜਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ

COURT NOTICE

The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich Judicial Magistrate 1st Class,

Kotak Mahindra Bank Bhupinder Pal Singh CNR NO: PBLD03-009276-2021

COMA/7320/2021 Notice To: 1) Bhupinder Pal Singh Sehgal Address- Authorized Signatory Of Sehgal Transport Services Pvt Ltd Resident Of B3 Janak Puri West Delhi Whereas it has been proved to the

Given under my hand and the seal of the https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n

The Court Of Ms. Lovepreet Kaur

Swaich Judicial Magistrate 1st Class. Kotak Mahindra Bank

Manpal Sharma CNR NO: PBLD03-046489-2020 COMA/8315/2020

Son Of Radhev Sham Sharma Resident

ersonally before this court on 03-04-Given under my hand and the seal of the court, for details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n

In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich Judicial Magistrate 1st Class.

Kotak Mahindra Bank

Nitin Jain Notice To: 1) Nitin Jain Address- Son Of Not Known Resident Of J 4 3s 4 West Jyoti Nagar Shahadara Gokal

Given under my hand and the seal of the

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n otice&district=ludhiana

The Court Of Ms. Lovepreet Kaur

Swaich Judicial Magistrate 1st Class,

Kotak Mahindra Bank

Sajal Goel CNR NO: PBLD03-046457-2020 COMA/8363/2020 Notice To: 1) Sajal Goel Address- D

9 Near Primary School Maan Srovar Park Sahadara Delhi Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service, hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 03-04-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n otice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

Given under my hand and the seal of the court, for details logon to:

♦FINANCIAL EXPRESS

F14445, F14466, F14465, F14467, F14497, F14500, F14503, F14508, F5180, F5770, F5798, F5991, F7776, F7777, F7861, F7959, F7966, F9106.

ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਫਲ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ RTGS ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ।

ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੈ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 16.03.2024 ਨੂੰ

DERABASSI: Mulhoot FinCorp Ltd., Upper Ground Floor, Khalsa Complex, Ambala, Chandigarh Highway, Derabassi, Mohali, Punjab - 140507, MANSA-PUNJAB: Mulhoot

FinCorp Ltd., Door No.800, Ground Floor, At Libas Silk Sarees, Gaushala Road, Mansa, Punjab - 151505. CHANDIGARH: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, SCO - 2902,

Sector - 22C, Opposite JW Marriot Hotel, Chandigarh, Punjab - 160022. (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਪਹਿਚਾਣ-ਪੱਤਰ

MUTHOOT FINCORP LTD. | ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਚਨਾ

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001

CIN: U65929KL1997PLC011518, Ph; +91 471 4911400, 2331427

ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 31.03.2023 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months enure Gold loans up to 30.06.2023 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 31.12.2023 ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन पकाशित किया जाना है

केंद्र सरकार से पहले (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) औ कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-निय (5) के खंड (ए) के मामले में

आरवी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मामले में लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय 7सी डॉक्टर्स लेन गोले मार्केट, सेंटल दिल्ली, नई दिल्ली, भारत में है

एसोसिएशन में बदलाव की पष्टि की मांग की जाती है कंपनी को अपने पंजीकत कार्यालय को ष्राष्ट्रीय राजधान क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) से पश्चिम बंगाल राज्य बदलने में सक्षम बनाने के लिए 21 फरवरी, 2024 व सामान्य आम बैठक आयोजित की गई।

एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेश क्षेत्रीय निदेशक को अपनी रुचि की प्रकृति और विरोध आधार बताते हए एक हलफनामे के साथ पंजीकत डाक भेजें। इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनं के भीतर एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके पंजीक कार्यालय में नीचे दिए गए पते पर भेजें: 7सी डॉक्टर्स लेन, गोले मार्केट, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली

आरवी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्श

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 27.02.2024

प्राइवेट लिमिटेड के लि

MUTHOOT FINCORP LTD. सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN: U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी संबंधित व्यक्तियों की सुचना के लिए एतददारा सुचना दी जाती है कि 31.03.2023 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 30.06.2023 and MSGB, SME Suvama & EMI due up to 31.12.2023 तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे कथित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के गहने जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार-बार सचना दिए जाने पर भी अब तक छड़ाए नहीं गया है उनकी नीलामी 07.03,2024 को 10.00 बजे से शरु कर दी जाएगी

F20831, F20844, F20869, F20874, F20877, F20891, F20896, F6499, F6700

नीलामी अपनी -अपनी शाखाओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारणवश उसी दिन पूरी न हो पाई तो नीलामी 18.03.2024 को सुबह 10.00 बजे JODHPUR-NAI SADAK: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Hotel Guru International, 26, Nai Sasdak, Opposite OBC Bank, Jodhpur, Rajasthan - 342001, MAKRANA-NAGAUR; Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, A Raza Complex, Near Shahara Office, Gora Bass, Manglana Road, Near HDFC Bank, Makrana, Rajasthan - 341505. SURAJ POLE-PALI: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Ramdev Complex, Plot No. 62, Surajpole Road, Near Govt. Hospital, Pali Marwar, Rajasthan - 306401. पर आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे फ़ोटो पहचान - पत्र, PAN कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओं को पैसा RTGS दारा टांसफर करना होगा । मृत्तृट फ़िनकॉर्प लिमिटेड

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities.

This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter

of offer dated January 18, 2024 the ("Letter of Offer") or ("LOF") and Addendum to LOF dated February 21, 2024 ("First Addendum") filed with the BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE", collectively with BSE referred to as the "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") ... **MAGNUM VENTURES LIMITED**

Magnum Ventures Limited (the "Issuer" or "Company") was incorporated under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Delhi and Haryana under the name 'Magnum Papers Private Limited' and a certificate of incorporation dated May 29, 1980 was issued by the Registrar of Companies, Delhi and Haryana. Our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by our Shareholders at an extraordinary general meeting held on February 15, 1995 and consequently the name of our Company was changed to 'Magnum Papers Limited' and a fresh certificate of incorporation dated May 31, 1995 was issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana at Delhi. Subsequently, pursuant to a resolution passed by the Shareholders in their EGM held on September 4, 2006, the name of our Company was changed to 'Magnum Ventures Limited' and a fresh certificate of incorporation dated November 15, 2006 was issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana at Delhi. For details in relation to change in Registered Office of our Company, please refer to "General Information" on page 61 of the Letter of Offer.

Registered Office: H.No. - M.N. 01, Hub and Oak, E-14, Lower Ground Floor, Defence Colony, New Delhi - 110024, Delhi, India Telephone: +91 114 242 0015 | Facsimile: N.A.

Corporate Office (where books of accounts are maintained): 18/41, Site IV, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad - 201 010, Uttar Pradesh, India Telephone: +91 120 419 9200 | Fax No.: N.A.

E-mail: info@magnumventures.in | Website: www.magnumventures.in | Contact Person: Aaina Gupta, Company Secretary and Compliance Officer Corporate Identification Number: L21093DL1980PLC010492

OUR PROMOTERS: PRADEEP KUMAR JAIN. PARMOD KUMAR JAIN AND PARVEEN JAIN

THE ISSUE

ISSUE OF UPTO 90,59,433 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹54/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹44/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹4,892.09 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF TWO (02) RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY ELEVEN (11) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON THURSDAY, JANUARY 25, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 5.4 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS. PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 239 OF THE LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription with respect to Rights Equity Shares.

ATTENTION INVESTORS NOTICE TO THE READER ("NOTICE") – ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED JANUARY 18, 2024

This notice should be read in conjunction with the First Addendum, LOF filed by the Company with the Stock Exchanges and SEBI and the ALOF and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the following: This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Wednesday, February 7, 2024 and was scheduled to close on Monday, February 26, 2024, has now been extended from Monday, February 26, 2024 to Tuesday, February 27 2024, by the Rights Issue Committee in its

meeting held on Monday. February 26, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Tuesday, February 27 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Tuesday, February 27 2024.

REVISED ISSUE SCHEDULE

Issue Opening Date	Wednesday, February 07, 2024
Issue Closing Date	Tuesday, February 27 2024
Finalising the basis of allotment with the Designated Stock Exchange	Tuesday, March 05, 2024
Date of Allotment (on or about)	Tuesday, March 05, 2024
Initiation of refunds	Tuesday, March 05, 2024
Date of credit (on or about)	Wednesday, March 06, 2024
Date of listing (on or about)	Monday, March 11, 2024

*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue

**Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms or on before the Issue Closing Date.

#Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s)on or prior to the Issue Closing Date.

This Addendum shall be available on the respective websites of our Company at www.magnumventures.in; the Registrar to the Issue at www.masserv.com; and the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Accordingly, there is no change in the LOF and ALOF dated January 18, 2024 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing date. Change

in Issue closing date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, FIRST ADDEMDUM, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN

CONJUCTION WITH THIS ADDENDUM. All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For MAGNUM VENTURES LIMITED

an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

On Behalf of the Board of Directors Parveen Jain

Date: February 26, 2024 Place: Delhi

Chairman and Non-Executive Director Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer and First Addendum with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and is submitted to Securities and Exchange Board of India for information and dissemination. The Letter of Offer and First Addendum is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, Our Company at www.magnumventures.in and the Registrar to the Issue at www. masserv.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer and First Addendum including the section "Risk Factors" beginning on page 23 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or

www.readwhere.com

ਮਬੂਟ ਫ਼ਿਨਕਾਰਪ ਲਿ.